

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2024—माघ 13, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्र.3505—स्था—प्रनिबो—2023.— मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 53 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन के पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 969— B भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा प्राप्त पूर्व अनुमोदन उपरांत बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड विश्लेषक नियुक्त करता है:—

क्र०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता/प्रशिक्षण जिसमें उपाधि/ पत्रोपाधि प्राप्त की हो
	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	
1	डॉ० अभय कुमार सक्सेना	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	श्री प्रेमचंद उचारिया	एम.एससी. (M.Sc.),
3	श्री अमोल दास संत	एम.एससी. (M.Sc.),
	मुख्य रसायनज्ञ	
1	डॉ० राजेश कुमार जैन	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	डॉ० आलोक सक्सेना	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
3	डॉ० नीरज कुमार वर्मा	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी., एल.एल.बी.
4	डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
5	श्री दुरविजय सिंह जाटव	एम.एससी. (M.Sc.),
6	श्रीमती संगीता आर.दानी	एम.एससी. (M.Sc.),
	वैज्ञानिक	

1	डॉ० निशा उपाध्याय	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	डॉ० राजश्री शुक्ला	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
3	श्री प्रतिम खरे	एम.एससी. (M.Sc.)
4	डॉ० प्रेम कुमार श्रीवास्तव	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
5	डॉ० आनन्द किशोर दुबे	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
6	डॉ० राजेन्द्र चतुर्वेदी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
7	डॉ० सरोज श्रीवास्तव	एम.एससी. (M.Sc.), एम.फिल., पीएच.डी.
8	डॉ० आरती अग्रवाल	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
9	डॉ० एस. सुनील सुधाकरण	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
10	श्रीमती तसनीम सूफी खान	एम.एससी. (M.Sc.), बी.एड.
11	डॉ० संध्या मोखले	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
12	श्री अतुल कोटिया	एम.एससी. (M.Sc.),
13	श्री हर्षवर्धन ठक्कर	एम.एस.सी., एल.एल.बी., डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए.
14	श्री अजय मिश्रा	एम.एससी. (M.Sc.),
15	श्री ताराशंकर बैनर्जी	एम.एससी. (M.Sc.),
16	श्रीमती पद्मा व्यास	एम.एससी. (M.Sc.),
17	डॉ० हरीश बी. वानखड़े	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
18	डॉ० आनन्द द्विवेदी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
19	डॉ० राजकुमारी सिंह	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
20	डॉ० अजय कुमार खरे	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
21	श्री संजय कुमार जैन	एम.एससी. (M.Sc.)
22	डॉ० दीपक काले	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
23	श्री असद उल्ला बेग	एम.एससी. (M.Sc.)
24	डॉ० राहुल द्विवेदी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी., पी.जी. इन कम्प्यूटर
25	श्री राजाराम भंवर	एम.एससी. (M.Sc.)
26	श्री राजमल गामड़	एम.एससी. (M.Sc.)
कनिष्ठ वैज्ञानिक		
1	डॉ० संजय मिश्रा	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	श्री हरीशंकर शर्मा	एम.एससी. (M.Sc.)
3	श्रीमती चंचला पाठक	एम.एससी. (M.Sc.)
4	डॉ० शुभी माथुर	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
5	डॉ० प्रवीण कोठारी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
6	डॉ. अशोक कुमार तिवारी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
7	श्री डी०के० शर्मा	एम.एससी. (M.Sc.)
8	श्री जय कुमार राजोरिया	एम.एससी. (M.Sc.)
9	श्री सुबोध भार्गव	एम.एससी. (M.Sc.)
10	श्री एस०एन० कटारे	एम.एससी. (M.Sc.)
11	श्री मनोज कुमार जैन	एम.एससी. (M.Sc.), पी.जी.डिप्लोमा (पर्या. भू-विज्ञान) पी.जी. डिप्लोमा (फॉरेस्ट मैनेजमेंट)
12	श्री अरविन्द कुमार सिंह	एम.एससी. (M.Sc.)
13	श्री राजकुमार जैन	बी.एससी.

14	श्रीमती अवंति हिण्डोलिया	एम.एससी. (M.Sc.)
15	श्रीमती सुनिता झौरे	एम.एससी. (M.Sc.)
16	श्रीमती किरण शाक्य	एम.एससी. (M.Sc.)
17	श्रीमती अमीया एक्का	एम.एससी. (M.Sc.)
18	श्री गणेश कुमार वैगा	एम.एससी. (M.Sc.)
19	श्री रविशंकर भारती	बी.एससी.
20	श्री रामदास बाघ	बी.एससी.
21	श्रीमती सीमा सोनी	बी.एससी.
22	श्रीमती ऊषा कीर	बी.एससी.
23	श्रीमती विनीता गौतम	एम.एससी. (M.Sc.)
24	श्री दिलीप केशरे	बी.एससी.
25	श्री बिजेन्द्र सिंह गहरवार	एम.एससी. (M.Sc.), एल.एल.बी.
26	श्री पृथ्वीराज सिंह चौहान	बी.एससी.
27	श्री सुशील कुमार मिश्रा	एम.एससी. (M.Sc.)
28	श्री ब्रजमोहन पटेल	एम.एससी. (M.Sc.)
29	श्री संतोष सिंह चौहान	एम.एससी. (M.Sc.)
30	श्री चन्द्रशेखर पटेल	एम.एससी. (M.Sc.)
31	श्री महेश पुरइया	एम.एससी. (M.Sc.)

रसायनज्ञ		
1	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	एम.एससी. (M.Sc.)
2	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	बी.एससी., एल.एल.बी., पी.जी.डी.सी.ए., पीजीडीई, एम.एससी. (M.Sc.) (पूर्वाद्ध)
3	श्री राजेश कुमार गाभे	बी.एससी.
4	श्री बल्देव सिंह ठकुर	बी.एससी.
5	श्री अशोक कुमार रामावत	एम.एससी. (M.Sc.)
6	श्री देवेन्द्र सोलंकी	एम.एससी. (M.Sc.)
7	श्रीमती श्वेता साहू	एम.एससी. (M.Sc.)
8	श्री संजय राजपूत	एम.एससी. (M.Sc.)
9	श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव	एम.एससी. (M.Sc.)
10	श्रीमती संगीता शुक्ला	एम.एससी. (M.Sc.)
11	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा	बी.एससी.
12	श्री रामबहोर यादव	एम.एससी. (M.Sc.)
13	श्री अशोक कुमार शर्मा	बी.एससी.
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला	बी.एससी.
15	श्री कमलेश सिंह राठौर	बी.एससी.
16	श्रीमती दीपा श्रीवास	एम.एससी. (M.Sc.)
17	श्री जैनेन्द्र चंदेल	एम.एससी. (M.Sc.)
18	श्री धर्मेन्द्र कुमार आर्य	बी.एससी.
19	श्री अरविन्द कुमार	एम.एससी. (M.Sc.)
20	श्रीमती किरण बैगा	बी.एससी., पीजीडीसीए

कड्ड505/स्था/प्रनिबो/2023 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-29 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन के पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 969-B भोपाल, दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्राप्त पूर्व अनुमोदन उपरान्त बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड विश्लेषक नियुक्त करता है :-

क्र०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता/प्रशिक्षण जिसमें उपाधि/ पत्रोपाधि प्राप्त की हो
	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	
1	डॉ० अभय कुमार सक्सेना	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	श्री प्रेमचंद उचारिया	एम.एससी. (M.Sc.)
3	श्री अमोल दास संत	एम.एससी. (M.Sc.)
	मुख्य रसायनज्ञ	
1	डॉ० राजेश कुमार जैन	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	डॉ० आलोक सक्सेना	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
3	डॉ० नीरज कुमार वर्मा	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी., एल.एल.बी.
4	डॉ० अविनाश चन्द्र करेरा	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
5	श्री दुरविजय सिंह जाटव	एम.एससी. (M.Sc.)
6	श्रीमती संगीता आर.दानी	एम.एससी. (M.Sc.)
	वैज्ञानिक	
1	डॉ० निशा उपाध्याय	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	डॉ० राजश्री शुक्ला	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
3	श्री प्रतिम खरे	एम.एससी. (M.Sc.)
4	डॉ० प्रेम कुमार श्रीवास्तव	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
5	डॉ० आनन्द किशोर दुबे	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
6	डॉ० राजेन्द्र चतुर्वेदी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
7	डॉ० सरोज श्रीवास्तव	एम.एससी. (M.Sc.), एम.फिल., पीएच.डी.
8	डॉ० आरती अग्रवाल	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
9	डॉ० एस. सुनील सुधाकरण	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
10	श्रीमती तसनीम सूफी खान	एम.एससी. (M.Sc.), बी.एड.
11	डॉ० संध्या मोखले	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
12	श्री अतुल कोटिया	एम.एससी. (M.Sc.)
13	श्री हर्षवर्धन ठक्कर	एम.एससी. (M.Sc.), एल.एल.बी., डी.सी.ए, पी.जी.डी.सी.ए.
14	श्री अजय मिश्रा	एम.एससी. (M.Sc.)
15	श्री ताराशंकर बैनर्जी	एम.एससी. (M.Sc.)

1-6	श्रीमती पद्मा व्यास	एम.एससी. (M.Sc.)
17	डॉ० हरीश बी. वानखड़े	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
18	डॉ० आनन्द द्विवेदी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
19	डॉ० राजकुमारी सिंह	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
20	डॉ० अजय कुमार खरे	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
21	श्री संजय कुमार जैन	एम.एससी. (M.Sc.)
22	डॉ० दीपक काले	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
23	श्री असद उल्ला बेग	एम.एससी. (M.Sc.)
24	डॉ० राहुल द्विवेदी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी., पी.जी. इन कम्प्यूटर
25	श्री राजाराम भंवर	एम.एससी. (M.Sc.)
26	श्री राजमल गामड़	एम.एससी. (M.Sc.)
	कनिष्ठ वैज्ञानिक	
1	डॉ० संजय मिश्रा	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
2	श्री हरीशंकर शर्मा	एम.एससी. (M.Sc.)
3	श्रीमती चंचला पाठक	एम.एससी. (M.Sc.)
4	डॉ० शुभी माथुर	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
5	डॉ० प्रवीण कोठारी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
6	डॉ. अशोक कुमार तिवारी	एम.एससी. (M.Sc.), पीएच.डी.
7	श्री डी०के० शर्मा	एम.एससी. (M.Sc.)
8	श्री जय कुमार राजोरिया	एम.एससी. (M.Sc.)
9	श्री सुबोध भार्गव	एम.एससी. (M.Sc.)
10	श्री एस०एन० कटरे	एम.एससी. (M.Sc.)
11	श्री मनोज कुमार जैन	एम.एससी. (M.Sc.), पी.जी.डिप्लोमा (पर्या. भू-विज्ञान) पी.जी. डिप्लोमा (फॉरेस्ट मैनेजमेंट)
12	श्री अरविन्द कुमार सिंह	एम.एससी. (M.Sc.)
13	श्रीमती अर्वाति हिण्डोलिया	एम.एससी. (M.Sc.)
14	श्रीमती सुनिता झौरे	एम.एससी. (M.Sc.)
15	श्रीमती किरण शाक्य	एम.एससी. (M.Sc.)
16	श्रीमती अमीया एक्का	एम.एससी. (M.Sc.)
17	श्री गणेश कुमार वैगा	एम.एससी. (M.Sc.)
18	श्रीमती विनीता गौतम	एम.एससी. (M.Sc.)
19	श्री बिजेन्द्र सिंह गहरवार	एम.एससी. (M.Sc.), एल.एल.बी.
20	श्री सुशील कुमार मिश्रा	एम.एससी. (M.Sc.)
21	श्री ब्रजमोहन पटेल	एम.एससी. (M.Sc.)
22	श्री संतोष सिंह चौहान	एम.एससी. (M.Sc.)
23	श्री चन्द्रशेखर पटेल	एम.एससी. (M.Sc.)
24	श्री महेश पुरइया	एम.एससी. (M.Sc.)
	रसायनज्ञ	
1	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	एम.एससी. (M.Sc.)
2	श्री अशोक कुमार रामावत	एम.एससी. (M.Sc.)
3	श्री देवेन्द्र सोलंकी	एम.एससी. (M.Sc.)
4	श्रीमती श्वेता साहू	एम.एससी. (M.Sc.)
5	श्री संजय राजपूत	एम.एससी. (M.Sc.)

6	श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव	एम.एससी. (M.Sc.)
7	श्रीमती संगीता शुक्ला	एम.एससी. (M.Sc.)
8	श्री रामबहोर यादव	एम.एससी. (M.Sc.)
9	श्रीमती दीपा श्रीवास	एम.एससी. (M.Sc.)
10	श्री जैनेन्द्र चंदेल	एम.एससी. (M.Sc.)
11	श्री अरविन्द कुमार	एम.एससी. (M.Sc.)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव.

(G-204)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में, मेरा नाम (सोनु) सुनीता (SONU SUNITA) पति श्री तुषार दगडखेर था, जो कि मेरे प्रमाण-पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर सुनीता दगडखेर (SUNITA DAGADKHER) पति श्री तुषार दगडखेर कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे सुनीता दगडखेर (SUNITA DAGADKHER) पति श्री तुषार दगडखेर के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(सोनु) सुनीता

नया नाम
(सुनीता दगडखेर)
पति-श्री तुषार दगडखेर
पता-सी-23, नई रेवती, इंदौर, जखिया,
इन्दौर (विश्वकर्मा की गली), इन्दौर (म.प्र.).

(G-205)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S J.K. ASSOCIATES पता- T WARD H. No.- 03, SAINIK COLONY, BAIRAGARH, BHOPAL पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0016/16 दिनांक 11/04/2016 है. दिनांक 28/12/23 को भागीदारी Mr. Jagdish Ramchandani S/o Late Shri G.D. Ramchandani, R/o- H. No. S-2, Indraprasth, Suncity Colony, Airport Road, Bhopal Pin-462030 एवं Mr. Jitesh Ramchandani S/o Mr. Jagdish Ramchandani R/o H. No. S-2, Indraprasth, Suncity Colony, Airport Road, Bhopal. Pin-462030 भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 28/12/2023 को फर्म का कार्यालय स्थान परिवर्तन कर KH. No. 16/1/2/1 (S) OLD SEHORE-BHOPAL ROAD, NEAR SATYA SAI COLLEGE, SEHORE कर लिया गया है.

M/S J.K. ASSOCIATES
(GAJANAND SHARMA)
पार्टनर
KH. No. 16/1/21 (S) OLD SEHORE-
BHOPAL ROAD, NEAR SATYA SAI
COLLEGE, SEHORE.

(G-206)

आम सूचना

फर्म मेसर्स श्रीराम पेट्रोलियम नौगाँव रोड छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. 471001 पंजीयत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेन्ट रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी सागर म.प्र. द्वारा 06/12/01/00024/05 दिनांक 19.09.2005 को किया गया था जिसके उपरान्त फर्म 11/03/2015 को पुर्नगठित की गई थी जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे—

1. प्रेम नारायण रूसिया
2. जगत नारायण रूसिया
3. महेश चन्द्र अग्रवाल
4. मनीषा अग्रवाल

उपरोक्त इस पंजीयत फर्म के भागीदार जगत नारायण रूसिया एवं मनीषा अग्रवाल स्वेच्छा से फर्म से रिटायर्ड हो रहे हैं तथा भागीदार महेश चन्द्र अग्रवाल की मृत्यु 26-10-2022 हो जाने के कारण को फर्म के पुर्नगठन की आवश्यकता पड़ने पर इस फर्म को पुनः 27-10-2022 पुर्नगठित किया गया. जिसमें स्व. महेश चन्द्र अग्रवाल की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल फर्म भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं, जिसके अनुसार दिनांक 27-10-2022 से निम्नांकित भागीदार—

1. प्रेम नारायण रूसिया
2. श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल रहेंगे.

वास्ते श्रीराम पेट्रोलियम,
भागीदार
प्रेम नारायण रूसिया

(G-207)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप कुमार दुबे पुत्र श्री स्वामीचरण दुबे, व्यवसाय-सरकारी नौकरी, निवासी-39, राधापुरम डी.डी. नगर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.). यह कि मेरे आर्मी के दस्तावेजों में मेरा नाम **DILEEP KUMAR DEBEY** अंकित है, जो कि त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम **DILEEP KUMAR DUBEY** है जो कि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों पर भी अंकित है. मेरे आर्मी के दस्तावेजों में मेरा सही नाम **DILEEP KUMAR DUBEY** अंकित कर दिया जाये.

पुराना नाम
(**DILEEP KUMAR DEBEY**)

नया नाम
(**DILEEP KUMAR DUBEY**)

पुत्र श्री स्वामीचरण दुबे,

(G-208)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म NAVKAR CONCRETE AND BUILDING MATERIALS, Address Arpit Jain S/o Subhash Jain, Thane ke Samne, Station Road, Khachrod, Tehsil Khachrod, Dist. Ujjain (M.P.) पंजीयन क्रमांक 07/33/04/0060/22 दिनांक 11/07/2022 है। जिसमें दिनांक 01/10/2022 को Mr. Santosh Mnohar Sutar S/o Manohar Sutar, Resident of Sr. No. 31, 804 E- Wing, Sukhwani Pacific, Thergaon Near Aditya Birla Hospital, Pune (Maharashtra) को नये भागीदार के रूप में फर्म NAVKAR CONCRETE AND BUILDING MATERIALS, Address Arpit Jain S/o Subhash Jain, Thane ke Samne, Station Road, Khachrod, Tehsil Khachrod, Dist. Ujjain (M.P.) में प्रवेश हुआ है।

वर्तमान में इस फर्म NAVKAR CONCRETE AND BUILDING MATERIALS में निम्न भागीदार रहेंगे।

- (1) Abhay Kumar Jain
- (2) Arpit Jain
- (3) Arvind Kumar Jain
- (4) Santosh Manohar Sutar

(G-209)

नाम परिवर्तन

मैं, हरिचंद्र पिता मोतीराम जौजाल निवासी— छत्रापुर, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा म.प्र. का हूँ मेरा नाम वर्तमान में हरिचंद्र पिता मोतीराम जौजाल एवं मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में है को परिवर्तन कर नया नाम "हरिचंद्र पिता मोतीराम जौजाल" कर रहा हूँ अर्थात् प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम "हरिचंद्र पिता मोतीराम जौजाल" के नाम से जाना जावे, संबोधित किया जावे।

पुराना नाम
(हरिचंद्र जौजाल)

नया नाम
(हरिचंद्र जौजाल)

(G-210)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश पिता स्व. रतन सावकारे निवासी —म. नं. 113, श्री निवास, वार्ड नंबर 40, सरस्वती नगर, बुरहानपुर को सूचित करता हूँ कि मेर पुत्र आरव (AARAV) का वास्तविक जन्म नाम साकेत (SAKET) हैं, परंतु उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शालेय अभिलेख में त्रुटिवश उसका नाम (AARAV) अंकित किया गया है। भविष्य में उसके सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों के लिए उसके पूर्व नाम आरव (AARAV) के स्थान पर वास्तविक नवीन परिवर्तित नाम साकेत (SAKET) के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे।

पुराना नाम
आरव सावकारे (AARAV SAWKARE)

नया नाम
साकेत सावकारे (SAKET SAWKARE)

(G-211)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज फर्म जिसका पता— 29, रामकृष्ण गंज, खंडवा जिसका पंजीयन क्रमांक 03/32/01/0055/15 दिनांक 25/09/2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री आनंद महेश्वरी पिता श्री सत्यनारायण महेश्वरी 2. श्री अनुराग राठी पिता श्री मांगीलाल राठी थे. तत्पश्चात् दिनांक 20. 09.2023 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री संतोष महेश्वरी पिता श्री सत्यनारायण महेश्वरी भागीदारी फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज में सम्मिलित हो गये हैं एवं श्री अनुराग राठी पिता श्री मांगीलाल राठी भागीदारी फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज से पृथक् हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

तर्फ

मे. कावेरी कोल्ड स्टोरज

1. आनंद महेश्वरी

2. संतोष महेश्वरी

(पार्टनर).

(G-212)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती तारा गोस्वामी पत्नी श्री दीपक गोस्वामी निवासी— 995/10 नन्दानगर इन्दौर म.प्र. है, विवाह के पूर्व मेरा नाम तारा अहिरवार पुत्री श्री भगवान दास अहिरवार था, विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम तारा अहिरवार से परिवर्तित कर श्रीमती तारा गोस्वामी पत्नी श्री दीपक गोस्वामी कर लिया है. मेरे शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका है जबकि मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम तारा अहिरवार दर्ज है. मेरे आधार कार्ड में अब श्रीमती तारा गोस्वामी पत्नी श्री दीपक गोस्वामी के नाम से ही जाना एवं पहचाना दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(तारा अहिरवार)

पुत्री श्री भगवान दास अहिरवार

नया नाम
(तारा गोस्वामी)पत्नी श्री दीपक गोस्वामी आयु लगभग
24 वर्ष.

(G-213)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का आम बोल-चाल का नाम संजय चौबे है और यही नाम मेरी पुत्री पीहू चौबे के जन्म प्रमाण-पत्र पर अंकित हो गया है एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम धर्मेन्द्र चौबे दर्ज/अंकित है मेरा पता— 64, जवाहर मार्ग, गली नंबर 1, ग्राम काटाफोड तहसील सतवास हस्याखेड़ी, देवास (म.प्र.) है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं एवं भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम धर्मेन्द्र चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम
(संजय चौबे)नया नाम
(धर्मेन्द्र चौबे)

(G-214)

नाम परिवर्तन

मैं, तरुण कुमार रकसिया (TARUN KUMAR RAKSIYA) पिता श्री रामनाथ रकसिया (RAMNATH RAKASIYA) निवासी वार्ड नं. 7 ग्राम व पोस्ट लिंगा, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) है। मेरा सही नाम तरुण कुमार रकसिया (TARUN KUMAR RAKSIYA) है किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा कुलनाम RAKESH अंकित हो गया है, जबकि उक्त दोनों कुलनाम मेरे ही हैं।

अतः जहां कहीं मेरा नाम तरुण कुमार राकेश (TARUN KUMAR RAKESH) पिता श्री रामनाथ राकेश (RAMNATH RAKESH) अंकित हो, संशोधित किया जाकर सही नाम तरुण कुमार रकसिया (TARUN KUMAR RAKSIYA) पिता श्री रामनाथ रकसिया (RAMNATH RAKASIYA) अंकित किया जावे एवं मुझे इसी नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा व संबोधित किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
तरुण कुमार राकेश (TARUN KUMAR RAKESH)	तरुण कुमार रकसिया (TARUN KUMAR RAKSIYA)

(G-215)

उप नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत परदेशी पिता श्री सुनील कुमार परदेशी निवासी- म. नं. 266, शारदा नगर, करमेता, जबलपुर (म.प्र.) है। मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रशांत परदेशी दर्ज है।

अतः मुझे प्रशांत गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (प्रशांत परदेशी)	नया नाम (प्रशांत गुप्ता)
--------------------------------	-----------------------------

(G-216)

नाम परिवर्तन

मैं, शांति बाई पत्नि श्री छोटे मीना निवासी नित्य सेवा सोसायटी एरोसिटी रोड गांधी नगर पीपलनेर भोपाल म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम अंशुल मीना अंकित है जो कि घर का नाम है और शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकुश मीना नाम है वर्तमान में बालक का नाम अंकुश मीना है।

मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड में अंकुश मीना नाम से जाना पहचाना जायेगा जो कि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेज में अंकित है अतः मेरे पुत्र का नाम अंकुश मीना नाम से जाना पहचाना दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (अंशुल मीना)	नया नाम (अंकुश मीना)
----------------------------	-------------------------

(G-217)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश तिवारी पिता स्व. श्री माधव प्रसाद तिवारी निवासी-वार्ड नं. 32, प्रेम नगर कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मनकामेश्वर तिवारी दर्ज है. मेरे द्वारा नाम परिवर्तन कर मुकेश तिवारी (MUKESH TIWARI) कर लिया गया है, भविष्य में मुझे नये नाम मुकेश तिवारी (MUKESH TIWARI) के नाम से जाना एवं पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मनकामेश्वर)
(MANKAMESHWAR)

नया नाम
(मुकेश तिवारी)
(MUKESH TIWARI)

(G-218)

नाम परिवर्तन

मैं, गुलाब सिंह अहिरवार पुत्र श्री भदई अहिरवार निवासी - म.नं. 45, अनन्त नगर, सुन्दर नगर फेस-3 लाल टंकी के पास विदिशा रोड भोपाल.

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गुलाब सिंह अहिरवार दर्ज है एवं मेरे पेन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में गुलाब प्रसाद एवं गुलाब प्रसाद चमार अंकित है, अतः ये तीनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. भविष्य में मुझे गुलाब सिंह अहिरवार के नाम से जाने व पहचाने.

पुराना नाम
गुलाब प्रसाद
(Gulab Prasad)

गुलाब प्रसाद चमार

नया नाम
गुलाब सिंह अहिरवार
(Gulab Singh Ahirwar)

(G-219)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैं, राहुल भगोरिया (RAHUL BHAGORIYA) पिता का नाम माखन लाल भगोरिया, व्यवसाय शेयर मार्केट, पता 131 फेस-1 अरिहंत विहार कॉलोनी विदिशा (म.प्र.) मेरी सभी शैक्षणिक दस्तावेज बीमा पॉलिसी एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे सरनेम की स्पेलिंग राहुल भदौरिया (RAHUL BHADOURIA) दर्ज है जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों (आधार कार्ड, पेन कार्ड) में मेरे सरनेम की स्पेलिंग राहुल भगोरिया (RAHUL BHAGORIYA) दर्ज है अतः उपरोक्त दोनो नाम मेरे ही है भविष्य मे मुझे राहुल भगोरिया (RAHUL BHAGORIYA) के नाम से लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(राहुल भदौरिया)
(RAHUL BHADOURIA)

नया नाम
(राहुल भगोरिया)
(RAHUL BHAGORIYA)

(G-220)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती जयश्री पागे पति दिनेश पागे निवासी शिव मन्दिर के पीछे, स्नेह नगर, मंदसौर मेरा पूर्व का नाम जयश्री (JAYSHREE) मुले पिता भास्कर राव मुले था, विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती जयश्री (JAYSHREE) पागे है. मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, आधार कार्ड, लायसेंस में मेरा सही नाम श्रीमती जयश्री (JAYSHREE) पागे पति दिनेश पागे है. प्रकाशन उपरान्त मुझे संशोधित नाम से पहचाना व पुकारा जाए, भविष्य में मुझे श्रीमती जयश्री पागे (JAYSHREE PAGEY) पति दिनेश पागे के नाम से जानी-पहचानी जाउंगी.

पुराना नाम
जयश्री पागे (JAISHREE PAGEY)

नया नाम
जयश्री पागे (JAYSHREE PAGEY)

पति दिनेश पागे

(G-221)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुमानलाल नगपुरे उर्फ गुमान सिंह नगपुरे पिता चमारूलाल नगपुरे निवासी ग्राम बिटोडी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट, मैं गुमान लाल नगपुरे उर्फ गुमान सिंह दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है मैंने अपना उर्फ नाम गुमान सिंह का त्याग कर उसके स्थान पर मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों में गुमान लाल नगपुरे लिखा व अंकित किया जावे, भविष्य में गुमान लाल नगपुरे के नाम से जाना व पहचाना जाउंगा.

पुराना नाम
गुमान लाल नगपुरे उर्फ गुमान सिंह
(GUMAN LALNAGPURE @GUMAN SINGH)

नया नाम
गुमान लाल नगपुरे
(GUMANLALNAGPURE)
पिता-चमारूलाल नगपुरे.

(G-222)

CHANGE OF NAME

I, SONU THAKUR D/o DEVI PRASAD THAKUR hereby declare that after marriage I have changed my name as SURYANSHI THAKUR D/o DEVI PRASAD THAKUR so from now and in future I will be known by my new name.

OLDNAME
SONU THAKUR
D/o DEVI PRASAD THAKUR

NEWNAME
SURYANSHI THAKUR
D/o DEVI PRASAD THAKUR.
Address : 165, PUSHPARATNA AVENUE,
BADIYA KEEMA,
INDORE (M.P.) INDIA.

(G-223)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में श्री महाकाल ट्रेडर्स (M/s SHRI MAHAKAL TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 04-17-01-146-09, दिनांक 02-02-2009 है. इस फर्म से दिनांक 08-11-2023 से एक भागीदार (1) श्री अभिजीत त्रिवेदी पिता मुनिन्द्र त्रिवेदी, निवासी-त्रिवेदी बंगला, विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 09-11-2023 से दो भागीदार (1) श्रीमति शर्मिता त्रिवेदी पति श्री अभिजीत त्रिवेदी, निवासी-त्रिवेदी बंगला, विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्री नृपेन्द्र प्रमोद सिंह पिता प्रमोद सिंह, निवासी-भंडारा रोड, नागपुर, तह. एवं जिला नागपुर (महा.) शामिल हो गये हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 09-11-2023 से संशोधन उपरांत तीन साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड वार्ड नं. 10, नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

SHRI MAHAKAL TRADERS**(स. अजिन्द्ररसिंह बेदी)**

(पार्टनर)

छिन्दवाड़ा.

(G-224)

नाम परिवर्तन

मैं, किरण प्रदीप कुमार फतेहपुरिया (KIRAN PRADEEPKUMAR FATEHPURIA) पत्नी श्री प्रदीप कुमार जगन्नाथ फतेहपुरिया सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी माताजी का नाम पार्वती देवी अग्रवाल (PARVATI DEVI AGARWAL) है, जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र में लिखा गया है, जबकि मेरी माताजी का सही नाम पार्वती बनवारीलाल अग्रवाल (PARVATI BANWARILAL AGARWAL) भी है, जो मेरे पासपोर्ट प्रकरण में लिखा गया है. पार्वती देवी अग्रवाल एवं पार्वती बनवारीलाल अग्रवाल दोनों ही मेरी माताजी के नाम हैं. भविष्य में मुझे पार्वती बनवारीलाल अग्रवाल के नाम से जाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

सूचनाकर्ता

(किरण प्रदीपकुमार फतेहपुरिया)

रंगवाला हाउस, डीडवाना ओली, सराफा,

ग्वालियर.

(G-225)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SITARAM AND SONS जो 123, TELGHANI ROAD, GUNA (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-40-01-0144-20, दिनांक 14-09-2020 है, जिसमें दिनांक 16-01-2024 को भागीदार, राजकुमार साहू पुत्र श्री रघुवीर साहू, निवासी-483, मेन रोड, चिरगाँव रूरल, झाँसी (उ.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 16-01-2024 को करण राठौर पुत्र श्री विनोद राठौर एवं नितिन राठौर पुत्र श्री घनश्याम राठौर, निवासीगण-भजन सेठ की कोठी, सिसोदिया कॉलोनी, गुना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

M/s SITARAM AND SONS**(सुनील साहू)**

(भागीदार)

(G-226)

123, TELGHANI ROAD, GUNA (M.P.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में श्री महाकाल ट्रेडर्स (M/S SHRI MAHAKAL TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 04-17-01-146-09, दिनांक 02-02-2009 है. इस फर्म से दिनांक 04-12-2023 से एक भागीदार (1) श्रीमति शर्मिता त्रिवेदी पति श्री अभिजीत त्रिवेदी, निवासी-त्रिवेदी बंगला, विवेकानंद कॉलॉनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रही है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 05-12-2023 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड वार्ड नं. 10, नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

SHRI MAHAKAL TRADERS

(स. अजिन्द्ररसिंह बेदी)

(पार्टनर)

स्थान : छिन्दवाड़ा.

(G-227)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SHRI SHYAM BAGICHI FLOUR MILL जो 01, GIRRAJ COLONY, GRAM SHANKARPUR, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0049-23, दि. 11-06-2023 है, जिसमें दिनांक 15-01-2024 को भागीदार अंकित अग्रवाल पुत्र श्री महेश चंद अग्रवाल, निवासी-जैन गली, गोवर्धन ब्रहामन, मथुरा (उ.प्र.) 2. जीतेन्द्र गोस्वामी पुत्र रामप्रकाश गोस्वामी, निवासी-बीजासेन माता मन्दिर के पास, निम्बा जी की खोह, जीवाजी गंज, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं.

M/s SHRI SHYAM BAGICHI FLOUR MILL

(दिव्या अग्रवाल)

(भागीदार)

01, GIRRAJ COLONY, GRAM SHANKARPUR,

GWALIOR (M.P.)

(G-228)

नाम परिवर्तन

मैं, विकास नागले आत्मज सुखनन्दन नागले सर्वसाधारण को सूचित करता हूं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों मेरा नाम विकास (Vikash) आत्मज सुखनन्दन अंकित है, जो की सही है, परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से विकास नागले (Vikas Nagale) दर्ज हो गया, जो की गलत है. विकास नागले (Vikas Nagale) और विकास (Vikash) दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में विकास (Vikash) आत्मज सुखनन्दन के नाम से ही जाना-पहचाना, पुकारा, पढ़ा एवं लिखा जाए.

पुराना नाम

विकास नागले (Vikas Nagale)

नया नाम

विकास (Vikash)

आत्मज-सुखनन्दन (Sukhnandan)

मकान नं 106, वार्ड क्र. 21, इंदिरा नगर, पाथाखेड़ा,

जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-229)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन्स, (पुराना 45, नया 581, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर) फर्म में 01-04-2023 से श्री सुमित अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल एवं मे. भास्कर प्रकाशन प्रा. लि. फर्म का भागीदार बनाया गया तथा फर्म के भागीदार श्री कैलाश अग्रवाल को फर्म की भागीदारी से सेवानिवृत्त किया गया।

मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन्स
(सुमित अग्रवाल)
(भागीदार)

(G-230)

नाम परिवर्तन

मैं, मोतीलाल (Motilal) पिता कंवरलाल, माता पुष्पबाई मैं, स्वेच्छा से अपना नाम परिवर्तित करवाना चाहता हूँ, पूर्व का नाम मोतीलाल पिता कंवरलाल था तथा अब मुझे लोकेश सोलंकी पिता कंवरलाल के नाम से जाना-पहचाना जाता है। इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लोकेश सोलंकी पिता कंवरलाल के नाम से जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए। मोतीलाल एवं लोकेश सोलंकी दोनों मेरे ही नाम हैं।

पुराना नाम
मोतीलाल (Motilal)

नया नाम
लोकेश सोलंकी (Lokesh Solanki)
वार्ड क्रमांक 10, ग्राम लामगरा, पोस्ट पटलावद,
तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

(G-231)

नाम परिवर्तन

मैं, शशांक परदेशी (Shshank Perdeshi) पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी, माता प्रेमलता परदेशी मैं, स्वेच्छा से अपना उपनाम नाम अपने गोत्र में परिवर्तित करवाना चाहता हूँ, पूर्व का नाम शशांक परदेशी पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी, माता प्रेमलता परदेशी था तथा अब मुझे शशांक वशिष्ठ (Shshank Vashishth) पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी, माता प्रेमलता परदेशी के नाम से जाना-पहचाना जाता है। प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में शशांक वशिष्ठ पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए। शशांक परदेशी एवं शशांक वशिष्ठ दोनों मेरे ही नाम हैं।

पुराना नाम
शशांक परदेशी (Shshank Perdeshi)

नया नाम
शशांक वशिष्ठ (Shshank Vashishth)
ई 6/273, जनता कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

(G-232)

नाम परिवर्तन

मैं, नितेश परदेशी (Nitesh Perdeshi) पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी, माता प्रेमलता परदेशी मैं, स्वेच्छा से अपना उपनाम नाम अपने गोत्र में परिवर्तित करवाना चाहता हूँ, पूर्व का नाम नितेश परदेशी पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी, माता प्रेमलता परदेशी था तथा अब मुझे नितेश वशिष्ठ (Nitesh Vashishth) पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी, माता प्रेमलता परदेशी के नाम से जाना-पहचाना जाता है। प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नितेश वशिष्ठ पिता स्व. श्री जगदीश परदेशी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए। नितेश परदेशी एवं नितेश वशिष्ठ दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में इस नाम से सम्बन्धित कोई भी विवाद की जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

पुराना नाम
नितेश परदेशी (Nitesh Perdeshi)

नया नाम
नितेश वशिष्ठ (Nitesh Vashishth)
ई 6/273, जनता कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

(G-233)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम जीवन कुमारी पुत्री श्री ईश्वर दास था. मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में भी मेरा नाम जीवन कुमारी अंकित है. मेरा विवाह श्री किशोरी लाल शर्मा, निवासी- 108/ए, रामानंद नगर, गुफा मंदिर के पास, जिला-भोपाल (म.प्र.) के साथ सम्पन्न हो जाने के उपरांत अब मेरा नाम श्रीमती कुसुम शर्मा हो गया है. अब मुझे श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी श्री किशोरी लाल शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा सभी दस्तावेजों में यही नाम मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(जीवन कुमारी)

नया नाम
(कुसुम शर्मा)
पत्नी-श्री किशोरी लाल शर्मा,

(G-234)

जाहिर सूचना

फर्म मेसर्स गेलेक्सी होम्स, मकान नंबर 512, वार्ड नंबर 12, टी.बी. अस्पताल क्वाटर, डॉ. चौहान के पास, नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) 471201 पंजीयत फर्म है, जिसका पंजीयन नंबर 06-12-03-0076-19 असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म एण्ड सोसायटी, सागर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 17-10-2019 को किया गया था, जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे:-

1. धीरेन्द्र निगम, 2. विनायक श्रीवास्तव, 3. राहुल खरे

उपरोक्त इस पंजीयत फर्म के पुर्नगठन की आवश्यकता पड़ने पर इस फर्म को पुनः पुर्नगठित करने की कार्यवाही चल रही है, जिसमें भागीदार विनायक श्रीवास्तव, राहुल खरे स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो रहे हैं तथा धीरेन्द्र निगम के साथ राजेश कुमार शिवहरे, अभिलाषा शिवहरे, दिनेश राय, मोहित बाबू राय एवं आशीष शिवहरे फर्म के नये पार्टनर बन रहे हैं, जिसके अनुसार दिनांक 18-12-2023 से निम्नांकित भागीदार रहेंगे:-

1. धीरेन्द्र निगम
2. राजेश कुमार शिवहरे
3. अभिलाषा शिवहरे
4. दिनेश राय
5. मोहित बाबू राय
6. आशीष शिवहरे

FOR GALAXY HOMES

(धीरेन्द्र निगम)

भागीदार.

(G-235)

आम सूचना

फर्म मेसर्स रारु इन्टरप्राइजेज अभऊ, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) 471510 पंजीयत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी, सागर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 01-07-2014 को किया गया था, जिसके उपरान्त फर्म 01-11-2019 को पुर्नगठित की गई थी, जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे:-

1. संदीप कुमार प्रजापति, 2. जगरूप प्रजापति, 3. घमेन्द्र सिंह तोमर पिता श्री वेताल सिंह तोमर

उपरोक्त इस पंजीयत फर्म के पुर्नगठन की आवश्यकता पड़ने पर इस फर्म को पुनः पुर्नगठित करने की कार्यवाही चल रही है, जिसमें घमेन्द्र सिंह तोमर पिता वेताल सिंह तोमर स्वेच्छा से फर्म से रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसके अनुसार दिनांक 04-08-2023 में निम्नांकित भागीदार:-

1. संदीप कुमार प्रजापति, 2. जगरूप प्रजापति रहेगे.

M/S RARU ENTERPRISES

(जगरूप प्रजापति)

Partner.

(G-236)

नाम परिवर्तन

मैं, राम स्वरूप शर्मा पुत्र-श्री बैद्यनाथ शर्मा, आयु 68 वर्ष, निवासी-म.नं. 14, बागवान नगर, छापरा रामपुर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में रामस्वरूप शर्मा (RAM SWARUP SHARMA) अंकित है, जो गलत है. मेरे आधार, पेन, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं शासकीय प्रपत्रों में मेरा सही नाम राम स्वरूप शर्मा (RAM SWAROOP SHARMA) नाम है, जो सही एवं सत्य है. (RAM SWARUP SHARMA), (RAM SWAROOP SHARMA) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, जो मैं, स्वयं हूँ.

अतः समस्त दस्तावेजों/सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम (RAM SWAROOP SHARMA) अंकित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रामस्वरूप शर्मा (RAM SWARUP SHARMA) (G-237)	रामस्वरूप शर्मा (RAM SWAROOP SHARMA)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राममणी गुप्ता (RAMMANI GUPTA W/O SHARAD KUMAR GUPTA), आयु-70 वर्ष, निवासी-म.नं. 5, मालाखेड़ी रोड, सेमेरिंटस स्कूल के पास, मालाखेड़ी, होशंगाबाद (म.प्र.) की निवासी हूँ.

मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मणि गुप्ता अंकित हो गया था, जबकि मेरा वास्तविक नाम राममणी गुप्ता है, जो कि मैं, अब भविष्य में अपने वास्तविक नाम राममणी गुप्ता (RAMMANI GUPTA W/O SHARAD KUMAR GUPTA) के नाम से जानी जाऊंगी. अब मेरा नाम भविष्य में सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में राममणी गुप्ता (RAMMANI GUPTA W/O SHARAD KUMAR GUPTA) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा.

पुराना नाम (मणि गुप्ता)	नया नाम (राममणी गुप्ता) पत्नी-शरद कुमार गुप्ता, (Rammani Gupta W/o Sharad Kumar Gupta)
----------------------------	---

(G-238)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरे मार्कशीट में मेरा नाम शमा बानो Shama Bano दर्ज है, जो मेरे शैक्षणिक रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नया नाम शमा मलिक (Shama Malik) कर लिया है, जो की मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड में दर्ज है. भविष्य में मुझे शमा मलिक (Shama Malik) के नाम से जाना व पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (शमा बानो) (Shama Bano)	नया नाम (शमा मलिक) (Shama Malik) पति-अब्दुल शहाब (Abdul Shahaab)
--	--

(G-239)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रिया आडवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम प्रिया आडवानी पुत्री श्री राजकुमार आडवानी था एवं विवाह पश्चात् का नाम लकिता बजाज पत्नी श्री भगवानदास बजाज था, जिनसे विवाह विच्छेद हो गया है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरे विवाह पश्चात् वाले दस्तावेजों में मेरा नाम लकिता बजाज के स्थान पर प्रिया आडवानी नाम पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(लकिता बजाज)

(G-240)

नया नाम

(प्रिया आडवानी)

निवासी—मकान नंबर—जी 2, डी ब्लॉक, संत छाया
कैलाश नगर, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़),
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूल व त्रुटिवश आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम गजेन्द्र सिंह (Gajendra Singh) लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम गजेन्द्र सिंह गजपाल (Gajendra Singh Gajpal) है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गजेन्द्र सिंह गजपाल (Gajendra Singh Gajpal) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(गजेन्द्र सिंह)

(G-241)

नया नाम

(गजेन्द्र सिंह गजपाल)

43, पीस वैली 1 और 2, छत्रसालनगर,
फेस-3, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कमली केसवानी पत्नी श्री ईश्वरदास केसवानी है, जो शासकीय/अर्द्धशासकीय व अन्य प्रपत्रों/दस्तावेजों में भी अंकित हैं तथा कुछ दस्तावेज में मेरा नाम त्रुटिवश कमला केसवानी हो गया है. उक्तानुसार दोनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में अब मुझे कमली केसवानी पत्नी श्री ईश्वरदास केसवानी के नाम से जाना जाय तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(कमला केसवानी)

(G-242)

नया नाम

(कमली केसवानी)

पत्नी—श्री ईश्वरदास केसवानी,
निवासी—डब्ल्यूपी 87, लेकपर्ल गार्डन,
अपोजिट दाता कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड,
लालघाटी, भोपाल.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स संकल्प वेयरहाउसिंग एवं खरीदी केंद्र पता—सर्वे क्र. 232, 243, 245, ग्राम बद्रखा बाबाजी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07-33-01-0190-21 सन् 2020-2021 दि. 24-03-2021, जिसका दिनांक 22-12-2023 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे—

1. श्रीमती रश्मि डांगी
2. श्रीमती नीलिमा जैन
3. श्रीमती रश्मि जैन
4. श्रीमती रंजना आशीर्वाल
5. श्रीमती पूनम आशीर्वाल

दि. 22-12-2023 से भागीदार क्र. 1, 2, व 3 फर्म से पृथक् हो गए हैं। इस प्रकार दि. 22-12-2023 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार कर रहे हैं—

1. श्रीमती रंजना आशीर्वाल
2. श्रीमती पूनम आशीर्वाल

भागीदार फर्म मेसर्स संकल्प वेयरहाउसिंग एवं खरीदी केंद्र में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

वास्ते—संकल्प वेयरहाउसिंग एवं खरीदी केंद्र

(रंजना आशीर्वाल)

भागीदार

सर्वे क्र. 232, 243, 245, ग्राम बद्रखा बाबाजी,
तहसील घटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-243)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम फरखुन्दा नईम पत्नी श्री तौसिफ अशरफ है। मेरी पुत्री की मार्कशीट में मेरा नाम फरखुन्दा लिखा गया है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मुझे फरखुन्दा नईम के नाम से जाना जावे। शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम फरखुन्दा नईम मान्य किया जावे।

पुराना नाम

(फरखुन्दा)

नया नाम

(फरखुन्दा नईम)

पत्नी—श्री तौसिफ अशरफ,

पता—म.नं. 23, पुलिस लाईन के सामने,

जहांगीराबाद, पायगा, हुजूर,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-244)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आधारशिला सिंडिकेट, पता-6, नगर निगम काम्प्लेक्स, उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 32/2003-04 सन् 2003, दि 22-11-2003, जिसका दिनांक 01-10-2011 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे—

1. श्रीमती रामप्यारी पाटीदार
2. श्रीमती माया पाटीदार
3. श्री रमेशचंद्र पाटीदार
4. श्रीमती तारा बाई पाटीदार
5. श्रीमती अयोध्या देवी पाटीदार
6. श्री देवेन्द्र पाटीदार
7. श्रीमती सविता आर्य
8. श्री रेवा शंकर चौधरी

दि. 01-10-2011 से भागीदार क्र. 4 फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं उनके स्थान पर 1 नया भागीदार श्रीमती रंजना पाटीदार सम्मिलित किये गए हैं। इस प्रकार दि. 01-10-2011 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार कर रहे हैं—

1. श्रीमती रामप्यारी पाटीदार
2. श्रीमती माया पाटीदार
3. श्री रमेशचंद्र पाटीदार
4. श्रीमती रंजना पाटीदार
5. श्रीमती अयोध्या देवी पाटीदार
6. श्री देवेन्द्र पाटीदार
7. श्रीमती सविता आर्य
8. श्री रेवा शंकर चौधरी

भागीदारों ने फर्म का व्यवसाय स्थल-6, नगर निगम काम्प्लेक्स, उज्जैन (म.प्र.) से पता परिवर्तित कर नवीन पता-सर्वे क्रं 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, ग्राम नवाखेडा, इंदौर रोड, जिला उज्जैन, (म.प्र.) पर कर दिया है. अब से फर्म का यही पता प्रभावशाली रहेगा.

भागीदार फर्म मेसर्स आधारशिला सिंडिकेट में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

वास्ते – आधारशिला सिंडिकेट

(रामप्यारी पाटीदार)

भागीदार

(G-245)

6, नगर निगम काम्प्लेक्स, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम संजीव कुमार पुत्र जे. के. सोनी अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है. प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम संजीव कुमार सोनी पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सोनी के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

संजीव कुमार (SANJEEV KUMAR)

संजीव कुमार सोनी (SANJEEV KUMAR SONI)

पिता-श्री जे. के. सोनी

पिता-श्री जितेन्द्र कुमार सोनी,

J.K. SONI

JITENDRA KUMAR SONI

पता-ओलिव-862, फेस-4, रुचि लाइफ एस्केप,

(G-246)

जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्री का नाम वर्तमान में उन्नति सोजतिया है. हम अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर सान्विका सोजतिया (SANVIKA SOJATIYA) कर रहे हैं. अतः भवष्य से हमारी पुत्री को उसके सही नाम सान्विका सोजतिया (SANVIKA SOJATIYA) के नाम से जाना-पहचाना जाये एवं अंकित किया जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(उन्नति सोजतिया)

(सान्विका सोजतिया)

(SANVIKA SOJATIYA)

(G-247)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह के पूर्व अम्बे चतुर्वेदी था. मेरा विवाह आशीष शर्मा के साथ हुआ था. विवाह के बाद मेरा नाम अनिष्का शर्मा पत्नी आशीष शर्मा अंकित है. अतः मुझे मेरे सही नाम अनिष्का शर्मा पत्नी आशीष शर्मा से जाना जाये एवं अंकित किया जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(अम्बे चतुर्वेदी)

(अनिष्का शर्मा)

पत्नी-आशीष शर्मा

निवासी-121 ए/22, शिवाजी नगर,

(G-248)

भोपाल (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विपिन कुमार नवलखा (VIPIN KUMAR NAVLAKHA) पिता श्री विमल कुमार नवलखा (जैन) था, जो कि मेरी शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. मेरे कुछ दस्तावेजों पर विपिन नवलखा तो कुछ दस्तावेजों पर विपिन नवलखा जैन भी दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर विपिन जैन (VIPIN JAIN) पिता श्री विमल कुमार नवलखा (जैन) कर दिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम विपिन जैन (VIPIN JAIN) पिता श्री विमल कुमार नवलखा (जैन) के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(विपिन कुमार नवलखा)

(VIPIN KUMAR NAVLAKHA)

नया नाम

(विपिन जैन)

(VIPIN JAIN)

पिता-श्री विमल कुमार नवलखा (जैन)

पता-48/बी, सेक्टर जी, बख्तावररामनगर,

इंदौर (म.प्र.).

(G-249)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम अंजली बंजारिया (ANJALI BANJARIYA) पिता श्री कमल बंजारिया है, जो कि मेरी समग्र आई. डी. पर दर्ज है, किन्तु मेरी शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण-पत्र एवं मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम अंजली बंजारा (ANJALI BANJARA) पिता श्री कमल बंजारा दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंजली बंजारिया (ANJALI BANJARIYA) पिता श्री कमल बंजारिया के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(अंजली बंजारा)

(ANJALI BANJARA)

नया नाम

(अंजली बंजारिया)

(ANJALI BANJARIYA)

पिता-श्री कमल बंजारिया,

पता- 14, धानगली, सराफा बाजार,

इंदौर (म.प्र.).

(G-250)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम फाल्गुनी बंजारिया (FALGUNI BANJARIYA) पिता श्री कमल बंजारिया है, जो कि मेरी समग्र आई. डी. पर दर्ज है, किन्तु मेरी शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण-पत्र एवं मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम फाल्गुनी बंजारा (FALGUNI BANJARA) पिता श्री कमल बंजारा दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फाल्गुनी बंजारिया (FALGUNI BANJARIYA) पिता श्री कमल बंजारिया के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(फाल्गुनी बंजारा)

(FALGUNI BANJARA)

नया नाम

(फाल्गुनी बंजारिया)

(FALGUNI BANJARIYA)

पिता-श्री कमल बंजारिया,

पता- 14, धानगली, सराफा बाजार,

इंदौर (म.प्र.).

(G-251)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s VIKAS ENTERPRISES, पता-4, Gautam Nagar, Kalakhet, Mandsaur, रजिस्ट्रेशन क्रमांक 720, दिनांक 08-03-1994 है।

जिसमें दिनांक 09-03-2012 को श्री दिलीप संचेती पिता श्री नाथुलाल जी संचेती, पता-महु, नीमच रोड, नई आबादी, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है।

तथा जिसमें दिनांक 10-03-2012 को (1) श्री अभय संचेती पिता स्व. श्री दिलीप जी संचेती, पता-महु, नीमच रोड, नई आबादी, मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) को नये भागीदार (पार्टनर) के रूप में फर्म M/s VIKAS ENTERPRISES, पता-4, Gautam Nagar, Kalakhet, Mandsaur में प्रवेश हुआ है।

तथा जिसमें दिनांक 11-03-2012 को फर्म का पता-4, Gautam Nagar, Kalakhet, Mandsaur (M.P.) के स्थान पर नवीन पता-65, Industrial Area, Mandsaur (M.P.) हो गया है।

तथा जिसमें दिनांक 11-03-2012 से फर्म M/s VIKAS ENTERPRISES नवीन पता-65, Industrial Area, Mandsaur (M.P.) से कार्यरत रहेगी।

वर्तमान में इस फर्म M/s VIKAS ENTERPRISES में निम्न भागीदार रहेंगे।

1. Sunil Duggad
2. Sanjay Porwal
3. Prasann Jain
4. Abhay Sancheti
5. Ankit Kimtee.

(G-252)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम अजय गुर्जर (AJAY GURJAR) पिता देव सिंह गुर्जर (DEV SINGH GURJAR) माता सुगन बाई गुर्जर (SUGAN BAI GURJAR) है, जो कि सही व सत्य है तथा मेरे वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है, किंतु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर मेरे संरक्षक का नाम रामचन्द्र गुर्जर एवं ममता गुर्जर का नाम दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजय गुर्जर (AJAY GURJAR) पिता देव सिंह गुर्जर (DEV SINGH GURJAR) माता सुगन बाई गुर्जर (SUGAN BAI GURJAR) के नाम से जाना-पहचाना व संबोधित किया जावे।

(AJAY GURJAR)

पिता-देव सिंह गुर्जर,
माता-सुगन बाई गुर्जर
पता-76, नई आबादी, उन्हेल,
उज्जैन (म.प्र.).

(G-253)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुजरात टिम्बर मार्ट (GUJRAT TIMBER MART), पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 25 जून 1985, भोपाल, मध्यप्रदेश फर्मों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीयत फर्म है. यह कि संशोधित साझेदारी विलेख 15 सितम्बर 2020 के अनुसार श्रीमती शांता बेन पटेल पति श्री खेतालाल पटेल, निवासी-28, श्री हरि सोसाइटी, धार रोड, इन्दौर और श्री रोशन पटेल पिता हिम्मत लाल पटेल, निवासी-28, श्री हरि सोसाइटी, धार रोड, इन्दौर को आपसी सहमति से फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा श्री खेताभाई (खेतालाल) पटेल पिता श्री नानजीभाई पटेल, निवासी-28, श्री हरि सोसाइटी, धार रोड, इन्दौर का स्वर्गवास होने से उनका फर्म से पृथक् होना भी आम जनता को सूचित हो. फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय-22/2, जी.एन.टी. मार्केट, धार रोड, लाबरिया भेरू, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452002 है.

वास्ते-गुजरात टिम्बर मार्ट

1. राजेश पटेल

पिता-श्री खेतालाल पटेल

2. मीता बेन पटेल

पति-हिम्मत लाल पटेल

3. शांता बेन पटेल

पति-श्री खेतालाल पटेल,

4. रोशन पटेल

पिता-हिम्मत लाल पटेल

(भागीदार)

पंजीयत कार्यालय-22/2, जी.एन.टी. मार्केट, धार रोड,
लाबरिया भेरू, इन्दौर (म.प्र.).

(G-254)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललिता बाई पति चुन्नी झाडे, निवासी-म.नं. 40/1, प.ह.नं. 29, परमंडल, ग्राम परमण्डल, शाखा डाकघर मुलताई, बैतूल (म.प्र.). मेरा नाम वोटर आई.डी. के अनुसार ललिता बाई है, जो कि सही है, जबकि आधार कार्ड में मेरे नाम त्रुटिवश उमा झाडे अंकित है, इसलिए आधार कार्ड में नाम परिवर्तित कर ललिता बाई दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ललिता बाई)

(G-255)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्तविक नाम जितेन्द्र चौहान Jitendra Chouhan पिता शिव करन चौहान है. मेरा यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता एवं समस्त दस्तावेज आदि में दर्ज है तथा मुझे घर में शैलेन्द्र सिंह के नाम से संबोधित किया जाता होने से मेरे पी.एफ. के रिकॉर्ड में मेरा नाम शैलेन्द्र सिंह Shailendra Singh दर्ज/अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में मुझे जितेन्द्र चौहान Jitendra Chouhan के नाम से जाना-पहचाना जावे.

(जितेन्द्र चौहान)

पिता-शिवकरन चौहान,

पता-501, न्यू गौरी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-256)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामराज नारनौरे पिता धनीराम नारनौरे, ग्राम दुलापुर, पोस्ट बड़गांव, तह. लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) मेरा नाम श्यामराज नेवारे पिता धनीराम नारनौरे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जिसे मैं अपने नाम श्यामराज नेवारे पिता धनीराम नारनौरे के स्थान पर अब मैं, श्यामराज नारनौरे पिता धनीराम नारनौरे लिखना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्यामराज नारनौरे पिता धनीराम नारनौरे लिखा-पढ़ा व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(श्यामराज नेवारे)

नया नाम
(श्यामराज नारनौरे)
पिता-धनीराम नारनौरे

(G-257)

अन्य सूचनाएं

निविदा सूचनाएं

निविदा सूचना

क्र. GPR-पेपर-5-1-0001-2024-176

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भिन्न-भिन्न आकार एवं रंगों के लिफाफे निर्धारित विवरण अनुसार उच्च गुणवत्ता के 80 जीएसएम मेपलिथो पेपर एवं क्राफ्ट पेपर (भूरा रंग) पर मुद्रण, लेमिनेशन (लिफाफे के अन्दर), बंधन (बाईंडिंग), परिवहन आदि समस्त कर सहित तैयार कर प्रदाय हेतु लिफाफा निर्माताओं से MPSEDC विभाग की वेबसाईट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं. निविदा दिनांक 13-2-2024 को 1.00 बजे उपस्थित निविदाकों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी.

2. ऑनलाईन निविदा की पेपर नमूने अभिप्रमाणित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

3. सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध है.

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी.

Key Dates and Time

1. Bid closing & last date & time for submission on online Bids : 12-02-2024 upto 11.00 pm.
2. Last Date & time for submission of Hard Copy of paper sample. : 13-02-2024 upto 12.00 pm.
3. Online Opening of the Technical Bid : 13-02-2024 upto 1.00 pm.

तकनीकी विवरण एवं शर्तें

क्र०	लिफाफे का नाम	मात्रा	तकनीकी विवरण
1	2	3	4
A	लिफाफा सेट-01 EVM कागजात		
1/1	ईवीएम कागजात के लिए मास्टर लिफाफा (सफेद रंग)	77500 नग	आकार: 16" X12" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
1/2	(i) दर्ज मतों का लेखा (प्ररूप 17सी) के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
1/3	(ii) पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट-1 (दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र) II & III के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
1/4	(iii) दिखावटी मतदान की वीवीपैट कगज की पर्चियों के लिए लिफाफा	155000 नग	आकार: ए/4 फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM काला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा। (सेट के अतिरिक्त शेष लिफाफे पृथक से पैक कर प्रदाय करना होगा।)
1/5	(iv) मतगणना के पश्चात वीवीपैट की पर्चियां रखे जाने हेतु लिफाफा	77,500 नग	आकार: 11.7" X 11.7" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM काला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
B	लिफाफा सेट-02 : दस्तावेजों की संवीक्षा		
2/1	(i) संवीक्षी दस्तावेजों के लिए मास्ट लिफाफा	77500 नग	आकार: 16" X 12" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।

2/2	(ii)पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
2/3	(iii)मतदाताओं के रजिस्टर (17ए) के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
2/4	(iv)प्ररूप 14ए में अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची एवं उनके साथियों द्वारा घोषणा के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
2/5	(v)भ्रमण पत्रक (विजिट शीट) के लिए सफेद रंग का लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
C	लिफाफा सेट-03: सांविधिक लिफाफा (सफेद रंग)		
3/1	सांविधिक कवर के लिए मास्टर लिफाफा	77500 नग	आकार: 16" X 12" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
3/2	(i)निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वगीकृत सेवा मतदान (सीएसवी) की सूची यदि कोई हो, के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
3/3	(ii)मतदाता पत्रियों के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।

3/4	(iii) प्ररूप 17 बी में निविदत्त मतों की सूची एवं प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के लिफाफा	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
3/5	(iv) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
3/6	(v) प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM सफेद रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
D	लिफाफा सेट-04: असांविधिक लिफाफा		
4/1	(i) असांविधिक कवर के लिए मास्टर लिफाफा	77500 नग	आकार: 16"X12" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/2	(ii) निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियों के लिए लिफाफा (चिन्हित प्रति के अलावा)	77500 नग	आकार: 14" X 10" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/3	(iii) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 14"X10" फ्लैप 1" पेपर 80GSM पीला रंग पेपर पर लिफाफे तैयार होना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/4	(iv) प्ररूप 12 बी में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मॅटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।

4/5	(v)पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गई घोषणाओं के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/6	(vi)अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित रसीद पुस्तिका या नकदी यदि कोई हो, के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/7	(vii) (i) अप्रयुक्त एवं क्षतियस्त पेपर सीलों के लिए (ii) अप्रयुक्त एवं क्षतियस्त विशिष्ट टैग के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/8	(viii)अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/9	(ix)निर्वाचकों से प्राप्त उनकी आयु के संबंध में घोषणाओं के लिए लिफाफा और ऐसे निर्वाचकों की सूची और उन निर्वाचकों की सूची और उन निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के बारे में घोषण करने से इनकार कर दिया है	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/10	(x)49 एमए के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।

4/11	(xi) ए एस डी सूची के निर्वाचकों की घोषणा के प्ररूप के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
4/12	(xii) पुलिस थाना प्रभारी को शिकायती पत्र के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM पीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
E	लिफाफा सेट-5: पुस्तिका, निर्देश एवं अन्य		
5/1	(i) पुस्तिकाओं, निर्देशों इत्यादि के लिए मास्टर लिफाफा	77500 नग	आकार: 16" X 12" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM खाकी रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
5/2	(i) प्रयुक्त एवं शेष अमिट स्याही की शीशियों तथा (ii) प्रयुक्त स्टम्प पैड के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 10" X 4.5" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM खाकी रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।
F	अन्य मतदान सामग्री के लिए लिफाफा	77500 नग	आकार: 16" X 12" फ्लैप 1" पेपर: 80 GSM नीला रंग के पेपर पर लिफाफे तैयार किया जाना है। लिफाफे के उपर मैटर ब्लैक इंक में विभाग के अनुमोदन अनुसार मुद्रित होगा।

1. लिफाफे का प्रूफ अनुमोदन कार्यादेश प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर 03 सेम्पल प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण मात्रा की सामग्री प्रूफ अनुमोदित होने की तिथि से 20 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः मुद्रित कर कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल को प्रदाय करना होगा।
- 1.2 मुद्रण : लिफाफे के नमूने अनुसार मैटर मुद्रण एवं लिफाफों के अन्दर लेमिनेशन करना होगा।

- 1.3 पैकिंग : 50-50 लिफाफों को सेट अनुसार बांधकर वांछित आकार के कार्टून में पैक कर प्रदाय करना होगा :-
लिफाफा 16"x12" के अन्दर निम्नानुसार लिफाफें रखे जाना है :-
- 1- 1/1 में 1/2 से 1/5 तक,
 - 2- 2/1 में 2/2 से 2/5 तक,
 - 3- 3/1 में 3/2 से 3/6 तक,
 - 4- 4/1 में 4/2 से 4/12 तक,
 - 5- 5/1 में 5/2 तक।
 - 6- अन्य मतदान सामग्री रखी जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र राशि रुपये 3,000=00 एवं प्रोसेसिंग फीस/सर्विस टैक्स का भुगतान ऑनलाईन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
3. EMD राशि रुपये 50,000/- का ऑनलाईन भुगतान MPSEDC विभाग के पोर्टल से करना अनिवार्य होगा।
- 4- निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा :-
- 4.1 फर्म का स्थापना, GST और PAN नम्बर रजिस्ट्रेशन।
 - 4.2 लिफाफे प्रदाय करने का तीन शासकीय अनुभव।
 - 4.3 निविदा की शर्तों पर सहमति स्वरूप पदमुद्रा अंकित हस्ताक्षर। फर्म के लेटर हैड पर निर्धारित अवधि में आदेशित लिफाफे प्रदाय किया जावेगा प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. लिफाफों में प्रयुक्त पेपर नमूनों पर जी.एस.एम., पेपर निर्माता मिल का नाम उल्लेख करते हुए हार्डकापी में की-डेट्स अनुसार अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक 13.02.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे ऑनलाईन पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी एवं पेपर नमूने हार्डकापी को खोला जावेगा। लिफाफे में BIS 1848 के लेटेस्ट मानक अनुसार 80 GSM सुपीरियर मेपलिथो पेपर (विभिन्न रंग) प्रयुक्त करें।
6. लिफाफे निर्वाचन हेतु तैयार कराये जा रहे हैं। अतः लिफाफे में निर्धारित मानक का पेपर, समय-सीमा में प्रदायगी, पैकिंग आदि की क्षमता रखने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लें। यदि L₁ निविदाकार कार्य करने से मना कराता है तो L₂ को कार्य आवंटित किया जावेगा। जिसके अंतर के राशि की वसूली L₁ निविदाकार से की जावेगी। किसी भी दशा में निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की स्थिति में जमा EMD एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी एवं फर्म को काली सूची रखे जाने के साथ ही कठोर कार्यवाही की जावेगी।

7. सफल निविदाकार को इस कार्यालय से ई-मेल से सूचना प्राप्त के 03 दिवस के अन्दर कुल व्यय का 10% राशि का FDR नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल के पक्ष में 12 माह की अवधि के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कर तत्काल अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। मुद्रण मात्रा में 25% की कमी-वृद्धि की जा सकती है। अनुमोदित दरें 30-04-2024 तक प्रभावशील रहेगी।
8. प्रदाय में विलम्ब होने की स्थिति में 2% प्रति सप्ताह के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी। इसके उपरान्त बिन्दू क्रमांक-6 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. सामग्री का प्रदाय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को किया जाना है। लिफाफों को सेट अनुसार बण्डल बांधकर एक समान कार्टून में पैकिंग कर प्रदाय करना होगा। मुद्रक द्वारा सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक पर इस कार्यालय का GST क्रमांक 23AAALD0979P3ZR अंकित करना होगा। देयक का भुगतान नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल द्वारा सीधे मुद्रक को किया जायेगा।
10. लिफाफों की ऑनलाईन दरें सेट अनुसार प्रस्तुत की जाना होगा।
11. शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबंधों या अपरिहार्य परिस्थिति आने के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है, तो लम्बित भुगतान पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल का होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधान के अन्तर्गत प्रकरण प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनके निर्णय को दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा। आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

चन्द्रशेखर वालिम्बे

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगढ़

प्र. क्र. 03-बी-113(1)-2022-23

मल्हारगढ़, दिनांक 12 जनवरी 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5(1)]

पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर के समक्ष आवेदक अरविन्द पिता सुजानमल बोथरा, निवासी-साकेत नगर, मन्दसौर, अध्यक्ष "जयानन्द जीवदया सेवा संस्थान ट्रस्ट बही तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर म.प्र." द्वारा आवेदन पेश किया गया।

मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास गठन करती है।

अब इसलिये मैं, विवेक सोनकर लोक न्यास का पंजीयक, उपखण्ड मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 12-02-2024 को उपखण्ड मल्हारगढ़ पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	: "जयानन्द जीवदया सेवा संस्थान ट्रस्ट बही, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर (म.प्र.)"
ट्रस्ट का कार्यालय	: कुशल सुरी दादावाडी बही, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर है।
संपत्ति का विवरण	: ट्रस्ट की सभी चल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में हैं, जो निम्न प्रकार हैं।

1. ट्रस्ट की चल सम्पत्ति :

1. बैंक अकाउन्ट में जमा राशि रुपये 2,81,774 /-
2. एफ.डी. रु. 5,03,888 /-, रु. 1,92,358 /-, रु. 3,05,983 /- जमा है।
3. वर्तमान में ट्रस्ट के पास कुल राशि रुपये 12,96,103 /- है।

2. ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति : निरंक.

(G-259)

विवेक सोनकर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड-जावरा,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

जावक क्रमांक 5359-रीडर-5-2023

जावरा, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

प्र. क्र. 0009-ब-113-2023-24

फार्म-4

[नियम-5(1) देखिए]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत के अंतर्गत आवेदक श्री श्री जैन दिवाकर भवन निवासी-जैन दिवाकर मार्ग, रंगरेज गली, जावरा द्वारा के जैन दिवाकर संप्रदाय ट्रस्ट मण्डल जावरा पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने से लिए आवेदन किया गया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर

प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 08-02-2024 को न्यायालय, उपखण्ड कार्यालय जावरा, जिला रतलाम पर दोपहर 3.00 बजे की जावेगी.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण

1. न्यास का पूरा नाम व पता : जैन दिवाकर संप्रदाय ट्रस्ट मण्डल जावरा, निवासी-जैन दिवाकर मार्ग रंगरेज गली, जावरा.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.

आज दिनांक 13 दिसम्बर 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(G-260)

अनिल भाना, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा,
जिला खंडवा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 00-बी-113(1)-2023-24
क्र. 1291-री-2-2023

खंडवा, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री मोहनसिंह पिता सिगदारसिंह तोमर, निवासी-ग्राम रिछफल, तह. पुनासा, जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा "रामेश्वर धाम रिछफल न्यास ग्राम रिछफल" तह. पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.) का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 26 दिसम्बर 2023 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

- सार्वजनिक न्यास का नाम व पता : "रामेश्वर धाम न्यास ग्राम रिछफल" तह. पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)
पता : "रामेश्वर धाम न्यास ग्राम रिछफल" तह. पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)

अनुसूची "अ"

- चल संपत्ति : नगद- 1000.00 रुपये बैंक खाते में नगद जमा.

अनुसूची "ब"

- अचल संपत्ति : निरंक.

(G-261)

बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवरी,
जिला सागर (मध्यप्रदेश)

क्र. 1329-री-2-2023

देवरी, दिनांक 29, 30 दिसम्बर 2023

प्र. क्र. 010-बी-113-2023-24

मौजा गौरझामर, जिला सागर (म.प्र.)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 5 (1) व 5(2)]

एतद्वारा जरिए विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मधुकर शेंड्ये पिता श्री रामचंद्र शेंड्ये व अन्य द्वारा श्री देव सीताराम देवस्थानम् मंदिर ट्रस्ट, गौरझामर, जिला सागर (म.प्र.) के पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। उक्त ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक 29 जनवरी 2024 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल संपत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति प्रकाशन उपरांत नियत दिनांक 29 जनवरी 2024 तक स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने अथवा नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा:-

1. लोक न्यास का पूरा नाम पता : श्री देवसीताराम देवस्थानम् (शेंड्ये) मंदिर ट्रस्ट, गौरझामर, तहसील देवरी.
2. लोक न्यास का उद्गम व प्रकृति : धार्मिक पर्व प्रायोजनार्थ कार्यों के तथा भारतीय संस्कृति की उन्नति के उद्देश्य पूर्ति हेतु.
3. स्थान जहां न्यास का मुख्य कार्यालय : श्री देवसीताराम देवस्थानम् (शेंड्ये) मंदिर ट्रस्ट, गौरझामर, तहसील देवरी.
4. कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधक के नाम व पता : निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम व पता
1.	श्री मधुकर शेंड्ये पिता स्व. श्री रामचंद्र शेंड्ये नि.-ई-140, मिनाली रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल
2.	श्री काशीनाथ शेंड्ये पिता स्व. श्री विश्वनाथ शेंड्ये नि.-सोनार एन्क्लेव, मकरोनिया, सागर
3.	श्रीपाद शेंड्ये पिता स्व. श्री गजानन शेंड्ये नि.- सुरेन्द्र गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल
4.	श्री विनोद शेंड्ये पिता स्व. श्री दिनकर शेंड्ये बस स्टैंड के पास, गौरझामर, जिला सागर
5.	श्री विवेक शेंड्ये पिता स्व. श्री विनायक शेंड्ये बजरिया वार्ड नंबर 1, दमोह
6.	श्री प्रशांत शेंड्ये पिता स्व. श्री सीताराम शेंड्ये बजरिया वार्ड नंबर 1, दमोह
7.	श्रीमती कल्पना शेंड्ये पत्नि श्री दिनेश मोरेश्वर शेंड्ये शंहशाह गार्डन, भोपाल
8.	श्रीमती सुषमा शेंड्ये पत्नि स्व. श्री वामन रामचंद्र शेंड्ये निवासी-पटपड़गंज, दिल्ली
9.	श्रीमती जया शेंड्ये पत्नि स्व. श्रीयशवंत शेंड्ये सेक्टर 14, वाशी नबी मुम्बई.

5. न्यासी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति : न्यासी या सदस्यों की मृत्यु अथवा पद से रीति त्याग-पत्र देने की स्थिति में अथवा पद रिक्त होने पर कार्यकारिणी/कोरम के सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया से.
6. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेज : मंदिर का संविधान
7. न्यास के संबंध में कोई योजना हो तो : इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत रहेगा. इस ट्रस्ट में मंदिर परिसर में स्थित विराजमान देवी देवता उनकी संपत्ति तथा व्यवस्थायें शामिल रहेंगे.
8. चल संपत्ति : मंदिर परिसर में स्थित समस्त प्रतिमाएं पूजा आदि के लिए प्रयुक्त सामग्री मंदिर स्टॉक पंजी संधारित है.
- अचल संपत्ति : मौजा गौरझामर स्थित देवी का मंदिर उससे लगकर बना मकान मौजा गौरझामर, फतेहपुर अमोदा, बिलगुवा स्थित आबादी व कृषि भूमियां.
9. न्यास की आय का स्रोत : मौजा कृषि भूमि से आय व दानदाताओं से प्राप्त राशि
10. औसत वार्षिक आय : कृषि भूमि व चढ़ोत्री से प्राप्त आय
11. न्यासी एवं प्रबंधक को सूचना का पता : श्री देवसीताराम देवस्थानम् (शेण्ड्ये) मंदिर ट्रस्ट गौरझामर, तहसील देवरी.

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय पदमुद्रा से जारी

(G-262)

गगन बिसेन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2024—माघ 13, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)